

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज

दिनांक- सितम्बर 19, 2020

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ***188 वाहनों का चालान व 26 वाहनों से कुल 23800/-रूपया शमन शुल्क वसूल*** किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया। ***व 01 वाहन को सीज कर*** आवश्यक कार्यवाही की गयी।

कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घूमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा ***188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 52*** व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व ***मास्क न लगाने वाले कुल- 238 व्यक्तियों से 23800/- रुपये शमन शुल्क*** वसुला गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से ***कुल- 25 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार*** कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध की गई कार्यवाही:- पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल- 04 अभि0गण को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 00 ली0 कच्ची शराब व 59 शीशी अवैध नेपाली शराब की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है-

थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त गिरजेश पुत्र रामनवत नि0 तेहरा थाना परसामलिक जनपद महराजगंज के कब्जे से *** 12 शीशी नेपाली शराब, बरामद कर थाना स्थानीय पर *मु0अ0सं0- 112/20, धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम*** का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया।

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त कोईल पुत्र रामराज साहनी नि० हनुमानगदिया थाना सोनौली जनपद महाराजगंज के कब्जे से * 17 शीशी नेपाली शराब, बरामद कर थाना स्थानीय पर *मु०अ०सं०-166/20, धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया ।

थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त राजभोग पुत्र रामकिशुन नि० दुर्गापुर थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से * 15 शीशी नेपाली शराब, बरामद कर थाना स्थानीय पर *मु०अ०सं०- 239/20, धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया ।

थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त नागेश्वर पुत्र प्रेमलाल नि० केबौली कला थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से * 15 शीशी नेपाली शराब, बरामद कर थाना स्थानीय पर *मु०अ०सं०-139/20, धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम* का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा० न्या० प्रेषित किया गया ।

कस्टम अधि० के अन्तर्गत कि गयी कार्यवाही:-

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण धर्मेन्द्र पुत्र स्वामीनाथ सा० चण्डी 2. दुर्गेश पुत्र रामसेवक नि० चण्डी थाना नौतनवा मह० के कब्जे से * 02 अदद मोटरसाइकिल पर 04 बोरी मे 150 किलोग्राम मटर* की बरामद कर थाना स्थानीय पर *मु०अ०सं०- निल/20, धारा- 3/11 कस्टम एक्ट* का अभियोग रिपोर्ट मा० न्या० पंजीकृत कर चालानी प्रेषित किया गया ।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए *कुल-19* विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 18/19/09/2020/को विभिन्न अपराधों में कुल- 29 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।